



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23]  
No. 23]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जनवरी 19, 1984/पौष 29, 1905  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 1984/PAUSA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

नौबहन और परिवहन मंत्रालय  
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1984

सां०का० नि० 42(अ).—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अनुसरण में और भारत सरकार के नौबहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं० सां०का० नि० 32 (अ) दिनांक 29.1.1982 को अधिक्रमण करते हुए विनाशोपशमन के न्यासी मंडल में निम्नलिखित सारणी के कालम (1) में उल्लिखित श्रितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संक्षिप्त क्षेत्रों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या विनिश्चित करती है जो उक्त सारणी के कालम 2 में दिखाई गई है।

सारणी

वे हित जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है	नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की सं०
1	2
पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
वाणिज्यिक समुद्री विभाग	1

1	2
सीमा शुल्क विभाग	1
आंध्र प्रदेश, सरकार	1
रक्षा सेवाएं	1
भारतीय रेल	1
विनाशोपशमन नगर नियम	1
नौबहन और परिवहन मंत्रालय	1
कुल	9

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1984 से लागू होगी।

[फाईल सं० पी०डब्ल्यू/पी/टी०बी०-26/83]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT  
(Post Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th January, 1984

G.S.R. 42(E). In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 32 (E) dated 29-1-1982 the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of

the said Table on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam:—

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
The Mercantile Marine Department	1
The Customs Department	1
The Government of Andhra Pradesh	1
The Defence services	1
The Indian Railways	1
Visakhapatnam Municipal Corporation	1
Ministry of Shipping & Transport	1
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>

2. This notification shall come into force on the 1st day of April 1984.

[F.No. PW/PTB-26/83]

सांकांनि० 43(अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं० सांकांनि० 33 (अ) दिनांक 29-1-82 का अधिक्रमण करते हुए, बिशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी संडल में निम्नलिखित सारणी के क्रमण कालम 2 और 3 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में दक्षित, प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है जो उक्त सारणी के कालम 4 में दक्षित है।

परन्तु उक्त सारणी की क्रम सं० 3, 4, 5 और 6 के मामले नगित सरकार के स्वामित्व आधीन या नियंत्रणाधीन निकायों के संबंध में ऐसे निकायों द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

सारणी

क्रम सं०	निकायों का नाम	हित	निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की सं०
1	2	3	4
1.	बिशाखापत्तनम चैम्बर आफ कामर्स, बिशाखापत्तनम	नाबिक	1
2.	फेडरेशन आफ आंध्र प्रदेश चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्रीज, हैदराबाद	"	1
3.	घातु और खनिज व्यापार निगम, लि०	"	1
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन	"	1
5.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	अन्य हित	1
6.	बिशाखापत्तनम स्टील प्लांट		1
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>

2. उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार 25 जनवरी, 1984 को समाप्त होने वाला अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर न्यासियों का निर्वाचन किया जायेगा।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1984 से लागू होगी।

[फा० सं० पी०इड्यू०/पी०टी०बी०-26/83]

सुवर्षेन वसुदेव उप सचिव।

G.S.R. 43 (E).— In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 33 (E) dated 29-1-1982 the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests shown respectively in columns 2 and 3 of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam.

Provided that in the case of body mentioned against serial numbers 3, 4, 5, and 6 of the said Table being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Name of bodies	Interests	Number of persons to be appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Visakhapatnam Chamber of Commerce Visakhapatnam.	Shippers	1
2.	Federation of Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry, Hyderabad.	Shippers	1
3.	Minerals and Metals Trading Corporation of India, Limited	Shippers	1
4.	Hindustan Petroleum Corporation	Shippers	1
5.	Hindustan Shipyard Limited	Other interests	1
6.	Visakhapatnam Steel Plant	Other interests	1
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act the Central Government hereby specifies the period ending with the 25th February, 1984, as the period within which the election of Trustees shall be held.

3. This notification shall come into force on the 1st day of April 1984.

[F.No. PW/PTB-26/83]

S. VASUDEV, Dy. Secy.